

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28, 2001 (श्रावण 6, 1923)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 28, 2001 (SRAVANA 6, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV
[PART IV]

गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं
[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.]

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Controller of Publication

नाम परिवर्तन

मैं अब तक सुनीता देवी के नाम से ज्ञात, पत्नी श्री दोलत सिंह निवासी वर्तमान पता नं० -7, राजपुर रोड, दिल्ली-54 ने अपना नाम बदल लिया है और इसके पश्चात मेरा नाम भगवानी होगा।

1-17/GI/2001

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इन बारे में अन्य कानूनी शर्तों को पूरा कर लिया है।

सुनीता देवी

हस्ताक्षर (वर्तमान पुराने नाम के अनुसार)

CHANGE OF NAMES

I, hitherto known as SHYAM CHARAN SHARMA S/o Late Shri CHABBI LAI, employee as Personal Assistant in the Lok Sabha Secretariat, Parliament House Annex, New Delhi, residing at D-773, Mandir Marg, New Delhi-110 001, have changed my name and shall hereafter be known as SHYAM CHARAN DHOUNDIYAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHYAM CHARAN SHARMA
[Signature (in existing old name)]

(231)

I, hitherto known as PRIYA MARY JOSE W/o Mr. THOMAS MATHEW, employed as Ward Sister in the 92 Base Hospital O/o 56 APO, residing at C/o Mr. Mathew Thomas Puthenpurackal, Vadavathoor, Kottayam, have changed my name and shall hereafter be known as PRIYA THOMAS MATHEW.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRIYA MARY JOSE
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SATYAM DELHI RAO S/o Late APPALASWAMY, employed as Shunter Driver, T. No. 11027-SSE/Shop No. 11, working under Dy. CME/Loco Workshop, S. E. Railway, Kharagpur, residing at Qr. No. 3/C-3 Unit-6, Old Settlement (PO) Kharagpur (Dist.) Midnapore (W.B.), have changed my name and shall hereafter be known as SATYAM DILLI RAO.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SATYAM DELHI RAO
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NAKULA S/o Late DHIRENDRA NATH MONDAL, employed as Master Crafts Man, T. No. 14090 in S. E. Railway Workshops, Kharagpur, residing at Holding No. 251/1, Koli Mandir, North Bhawanipur, PS & P.O. Kharagpur (T), have changed my name and shall hereafter be known as NAKUL CHANDRA MONDAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NAKULA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as K.T.I. RAVICHANDRAN S/o K. T. ISAIAH, employed as Sub Divisional Engineer in the Telecommunications, B.S.N.J., Mangalam Telephone Exchange, residing at 1/480A, John Jothi Garden, Little Flower School Backside, Kulle Gounden Pudur, Mangalam Road, Tirupur-641 687, have changed my name and shall hereafter be known as I RAVICHANTHERA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

K.T.I. RAVICHANDRAN
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SHRI RATAN BAHADUR S/o Late HARKA BAHADUR GIRI, employed as Head Cook in the Catering Section No. 11, Wing AF C/o 99 APO residing at Vill. Watikum P. O. Chitapukhuri, Dist. Khotang, Nepal, have changed my name and shall hereafter be known as SHRI RATAN BAHADUR GIRI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RATAN BAHADUR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as REKHA N. DABAS W/o Shri NARENDER KUMAR, employed as Additional District and Sessions Judge, Delhi in the Office of District and Sessions Judge, Delhi, residing at B/98, Pandara Road, New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as REKHA RANI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

REKHA N. DABAS
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ASHOK KUMAR SHARMA S/o Sh. RAQIR CHAND, employed as Head Clerk in the Northern Railway Mechanical Workshop Amritsar, residing at 71-A, Rishi Villa, Village Rishi, Amritsar, have changed my name and shall hereafter be known as ASHOK LAKHANPAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ASHOK KUMAR SHARMA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SUDESH W/o Late Shri PRITHVI RAJ, residing at 1172, Hawa Mahal, Rakab Ganj, Turkman Gate, New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as GEETA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUDESH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Ms. BINDA KUMARI D/o Late Shri M. S. RAWAT, employed as Private Secretary in the Ministry of External Affairs, residing at Qtr. No. 318, Type-III, Sector-II, Sadiq Nagar New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as Ms. BINDA RAWAT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Ms. BINDA KUMARI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SHIV DATT S/o Late Sh. BISHAN DATT, employed as Lower Division Clerk in the Ministry of Labour, Govt. of India Shram Shakti Bhavan, New Delhi-110001, residing at House No. 250, Mohammed Pur Govt. Colony, R. K. Puram, New Delhi-110066, have changed my name and shall hereafter be known as SHIV DATT JOSHI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHIV DATT
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SATISH CHANDER NAUTIYAL S/o Late Shri PARESHWAR PRASAD NAUTIYAL, employed as Senior Draftsman in the New Delhi Municipal Council, Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi-110001, residing at 82-D, DDA Flats, Motia Khan, Pahar Ganj, New Delhi-55, have changed my name and shall hereafter be known as SATISH NAUTIYAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SATISH CHANDER NAUTIYAL
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as D. ROJARAMANI D/o Shri D. G. RAO, employed as Field Officer (PL) in the ARC, Cabinet Secretariat, residing at H. No. 850, Block-14, Lodhi Colony, New Delhi-110003, have changed my name and shall hereafter be known as D. YUVAJYOTI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

D. ROJARAMANI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as M. VASU S/o Late Sh. P. KARU-NAKARAN NAIR, employed as LDC in the O/o the Asstt. Garrison Engineer (Indep) Agrani, Redfields-PO Coimbatore-641 018, residing at the place Sruthilayam House, Panchapadam, PO Pin-678034 Distt, Palghat, Kerala State, have changed my name and shall hereafter be known as M. VASUDEVAN NAIR

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

M. VASU
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SRI PROBHAAT CHANDRA MANDAL S/o Late RAMKANTA MANDAL, retired employed as T.S. (Telephone Supervisor) in the Department of Telecommunication, last posted at Siliguri, Dist. Darjeeling, residing at 117, Balaidas Chatterjee Road of Hakimpara, P.O. Siliguri, Dist. Darjeeling, have changed my name and shall hereafter be known as SRI PROBHAAT ROY CHOWDHURY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PROBHAAT CHANDRA MANDAL
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SRI PRASUN MANDAL S/o Sri PRABHAAT CHANDRA MANDAL, as B. Sc. (Hons.) Part-I Student as well as unemployed at Siliguri, Dist. Darjeeling residing at 117, Balaidas Chatterjee Road of Hakimpara, P.O. Siliguri, Dist. Darjeeling, have changed my name and shall hereafter be known as SRI PRASUN ROY CHOWDHURY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRASUN MANDAL
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Smt. SHEELA MANDAL W/o Sri PRABHAAT CHANDRA MANDAL, employed as T. S. (O) (Telephone Supervisor of Office) in the Department of Telecommunication, posted at Siliguri, Dist.—Darjeeling, residing at 117, Balaidas Chatterjee Road of Hakimpara, P.O. Siliguri, Dist.—Darjeeling, have changed my name and shall hereafter be known as Smt. SHEELA ROY CHOWDHURY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHEELA MANDAL
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NIZAMUDDIN ANSARI S/o ABDUL AZIZ, employed as Sorting Assistant in the R.M.S. Jabalpur, residing at the H. No. 1227/I, Pasivana Near Madarsa Subhania, Shastri Ward Jabalpur, have changed my name and shall hereafter be known as MOHAMMAD NIZAMUDDIN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NIZAMUDDIN ANSARI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SRI PROBHAL MANDAL S/o Sri PROBHAAT CHANDRA MANDAL, employed as Assistant Manager (Power Station) in the Department of West Bengal Power Development Corporation, posted at Kolkata Ther-

mal Power Station, District—Midnapore, residing at 117, Balaidas Chatterjee Road of Hakimpara, P.O. Siliguri, Distt. Darjeeling, have changed my name and shall hereafter be known as SRI PROBHAL ROY CHOWDHURY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PROBHAL MANDAL
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PURNENDU S/o Late CHANDRA KANTA, employed as Fitter Gr.I. in the T. No. 39052, Wagon Shop No. 39, S. E. Rly. Workshop, Kharagpur, residing at the Rly. Qrt. N. D. 2 Unit No. 4, MKI, Post Nimpura Kharagpur, Dist. Midnapore Pin-721 304, have changed my name and shall hereafter be known as PURNENDU ROY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PURNENDU
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as GAHUNA LAL ARMOR S/o Sh. MOORAT SINGH ARMOR, employed as Sorting Assistant in the R. M. S. Jabalpur residing at the H. No. 65 Ekta Nagar Colony, in front of Kilbil School Jabalpur have changed my name and shall hereafter be known as JASVANT KUMAR ARMOR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GAHUNA LAL ARMOR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MALESWAR RAO, S/o Late KONDAYYA, employed as Khakasi in the Sr. Sec. Engineer (Carriage & Wagon) S. E. Railway, Kharagpur residing at Rly. quarter No. 2/C-4 unit-5 at old settlement, P. O. Kharagpur, P. S. Kharagpur (T), Dist. Midnapore have changed my name and shall hereafter be known as PILLA MAHESWAR RAO.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MALESWAR RAO
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto, known as Sri GANESH BARIK, S/o Late BARIK RAMCHANDRA, employed as MALE SAFAIWALA in the Commercial Deptt. of Kharagpur S. F. Railway residing at the Qrt of SQ 1/5 Unit-A, Inda Kharagpur Dist. Midnapore have changed my name and shall hereafter be known as GANESH BISAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GANESH BARIK
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VIRWATI, wife of Sh. SUSHIL KUMAR, employed as house wife, residing at V-663, Street No. 12, Vijay Park, Moujpur, Delhi-53, have changed my name and shall hereafter be known as KOMAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIRWATI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as BHAGWATI W/o Late Shri RAM PRASAD, employed as Safaiwala in the Naval Headquarters, Ministry of Defence New Delhi, residing at Qr. No. 1411, Sector V, RK Puram, New Delhi have changed my name and shall hereafter be known as BHAGWAN DEVI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BHAGWATI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as GAGAN PAWAR D/o Shri SARBJIT SINGH PAWAR, employed as Student in the Govt. Medical College, Amritsar (Pb.), residing at Vill. Mithapur, Dt. Jalandhar (Pb.) have changed my name and shall hereafter be known as GAGAN SANGHA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GAGAN PAWAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as OM PRAKASH NIRALA S/o Shri GAINDA RAM, employed as Accountant in the Rural Electrification Corporation Limited, Core-4, Scope Complex, New Delhi-110003, residing at H. No. 1576, Gali Rodgaran, Lal Kuan, Delhi-110006 have changed my name and shall hereafter be known as OM PRAKASH NIRWAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

OM PRAKASH NIRALA
[Signature (in existing old name)]

CORRIGENDUM

Read as RAJESH MADHUKAR MORE S/o MADHUKAR MANGAI RAM MORE instead of RAJESH MADHUKAR MORE S/o MADHUKAR MANOAL RAM MORE change of name notice published in the Gazette of India Part-IV dated 26-5-2001 at Page 107, Column-II.

SHREE BAHUBALI CASTINGS PRIVATE LIMITED
Registered Office 4638 Deputy Ganj Sadar Bazar Delhi-110006.

Notice in pursuance of Section 485 (1) of the Companies Act, 1956

At a General Meeting of Shareholders of M/s. Shree Bahubali Castings Private Ltd. duly convened and held at the Registered Office 4638 Deputy Ganj, Sadar Bazar, Delhi-110006 on the 5th day of July, 2001 at 11.00 A.M. and at a general meeting of creditors duly convened and held at 2.00 P.M. respectively, the following special resolutions passed :

- (1) Resolved unanimously that the Company M/s. Shree Bahubali Castings Private Ltd. be and is hereby wound up voluntarily as creditors winding-up in accordance with the various provisions of the Companies Act, 1956.
- (2) Further resolved that Sh. Har Prashad S/o Late Charan Singh, resident of 44-Maitri Apartments, Plot No. 5, Mayur Vihar, Phase 1, Delhi-91 be and is hereby appointed Liquidator on a monthly remuneration of Rs. 2000/- besides other actual Liquidation expenses to finalize the dead affairs of the Company.

for Shree Bahubali Casting (P) Ltd.

SUSHIL KUMAR JAIN
Managing Director
M/s. Shree Bahubali Castings Pvt. Ltd.

Date : 9/07/2001
Place : New Delhi

FORM NO. 151

[See Rule 315]

Creditors' Voluntary Winding-up

Notice of appointment of liquidator pursuant to section 516

Name of Company : SHREE BAHUBALI CASTINGS PRIVATE LIMITED (IN LIQN)

Nature of business : Alloy Castings.

Address of Registered Office : 4638, Deputy Ganj, Sadar Bazar, Delhi-110006.

Name and Address of Liquidator(s) : Mr. Harprashad
44-Maitri Apartments, Plot No. 5,
Mayur Vihar, Phase-1, Delhi-110091.

Date of appointment : 5th July 2001.

By whom appointed : Creditors of the company.

HARPRASHAD
Liquidator

FORM No. 151

Members Voluntary winding up

Notice of appointment of Liquidator pursuant to Section 516.

Name of Company : Indian Road Construction Corporation Ltd. (Under Liquidation).

Nature of Business : Road & Bridge Construction.

Address of Registered office : Core-6, Floor-6, SCOPE Complex, 7, Lodi Place, New Delhi-110003.

Name & Address of Liquidator : Mr. M. Pran Konchady,
Chief Controller of Accounts
Ministry of Road, Transport & Highways, IDA Building,
Jamnagar House,
New Delhi-110011.

Date of appointment : 28th June 2001.

By whom appointed : Members by passing Special Resolution in their Annual General Meeting held on 28th June 2001.

M. PRAN KONCHADY
Liquidator

FORM NO. 155

[See rule 329]

(MEMBERS VOLUNTARY WINDING UP)

APPAREL EXPRESS CO. PVT. LTD.

(In Liquidation)

Notice convening final meeting

No. of Company : 7066

Notice is hereby given in pursuance of section 497 that a general meeting of the members of the above-named company will be held at E-490, Greater Kailash II, New Delhi-110 048 on Thursday the 16th day of August, 2001 at 10 a.m. for the purpose of having an account laid before them showing the manner in which the winding up has been conducted and property of the company disposed of and of hearing any explanation that may be given by the liquidator and also of determining by a special resolution of the company the manner in which the books, account and documents of the company and the liquidator shall be disposed of.

For Apparel Express Co. Pvt. Ltd., (In Liqn.)
Dated the 10th July, 2001.

M. L. CHOPRA
Liquidator

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड

एन०एस०ई० (फ्यूचर्स और ऑप्शन खण्ड) व्यापारिक विनियम में विहित उपबंधों को यहां नीचे दी गई सीमा तक संशोधित किया जाता है :—

1. परिभाषा अध्याय निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

(क) 'प्रयोग' और 'यूरोपीय शैली विकल्प संविदा' शब्दों की परिभाषा निम्नलिखित परिभाषाओं से प्रतिस्थापित की जाती है :

1. प्रयोग

प्रयोग का अर्थ विकल्प (ऑप्शन) धारक द्वारा एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार और उनके अधीन अधिकार का आह्वान करना है।

2. यूरोपीय शैली विकल्प संविदा

यूरोपीय शैली विकल्प संविदा का अर्थ एक ऐसी विकल्प संविदा है, जिसका प्रयोग समापन समय को अथवा उसके पूर्व समापन दिवस को किया जा सकता है।

(ख) निम्नलिखित शब्द की परिभाषा उपयुक्त स्थान पर परिभाषा अध्याय में प्रविष्ट की जाती है :

निगमित कार्रवाई

निगमित कार्रवाई का अर्थ स्टॉक विखंडन, स्टॉक समेकन, विलयन/विलयन समापन की स्कीम, स्पिन-आफ, समामेलन, पूंजी पुनः संरचना और समान प्रवृत्ति के ऐसे अन्य विशेषाधिकार अथवा घटनाएं, जिन्हें संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, के परिणामस्वरूप लाभांश, बोनस, राइट्स शेयर, शेयरों का निर्गम है और उसमें ये शामिल हैं।

2. अध्याय—III में मौजूद विनियम 3.1.5 के बाद निम्नलिखित विनियम प्रविष्ट किया जाता है :

अन्तर्निहित प्रतिभूतियों के जारीकर्ता द्वारा घोषित निगमित कार्रवाई के अनुसरण में संगत प्राधिकारी एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार खुली हित और/अथवा संविदा विनिश्चित में संशोधन सहित जैसा आवश्यक समझा जाए ऐसा संशोधन कर सकता है।

3. अध्याय—III के मौजूदा विनियम 3.1 के बाद निम्नलिखित विनियम प्रविष्ट किया जाता है :

3.2 स्थिति (पोजिशन) सीमा

संगत प्राधिकारी किसी भी समय अपने पूर्ण विवेक पर सभी अथवा किसी व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) संविदाओं के लिए मात्रा और/अथवा मूल्य सहित सभी अथवा किसी फ्यूचर्स और ऑप्शन व्यापारिक सदस्यों और उनके ग्राहकों के लिए अधिकतम दीर्घ और/अथवा लघु खुली स्थिति (पोजिशन) निर्धारित कर सकता है।

3.3 संगत प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई

किसी फ्यूचर्स और ऑप्शन व्यापारिक सदस्य/फ्यूचर्स और ऑप्शन व्यापारिक सदस्य के किसी संघटक द्वारा एक्सचेंज

क्लियरिंग कारपोरेशन के उप-नियमों, नियम और विनियमों के किसी उपबंध, संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिरोपित पोजिशन की सीमा से संबंधित आवश्यकताओं सहित एक्सचेंज/क्लियरिंग कारपोरेशन की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किए जाने पर संगत प्राधिकारी अपने विवेक पर स्वयं अपनी ओर से अथवा क्लियरिंग कारपोरेशन के परामर्श पर व्यापारिक सदस्य को कोई नोटिस दिए बिना संभव सीमा तक खुली स्थिति (पोजिशन) को बंद कर सकता है अथवा व्यापारिक सुविधा को वापस लेने सहित समय-समय पर जैसा सही समझा जाए अन्य कोई उपाय अथवा कार्रवाई कर सकता है।

4. विनियमों का परिणामी पुनःसंख्यांकन किया गया है।

कृते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड,
डी० सतीश कुमार,
प्रबंधक

नेशनल सिक्कूरिटीज क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

एन०एस०सी०सी० (फ्यूचर्स और ऑप्शन खण्ड) विनियम में विहित उपबंधों को यहां नीचे दी गई सीमा तक संशोधित किया जाता है :—

परिभाषा अध्याय को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

(क) "समनुदेशन", "प्रयोग", "समापन समय", "यूरोपीय शैली विकल्प (ऑप्शन) संविदा" और "फ्यूचर्स शैली प्रीमियम निपटान" शब्दों की परिभाषा निम्नलिखित परिभाषाओं से प्रतिस्थापित किए गए हैं :

1. समनुदेशन

समनुदेशन का अर्थ विकल्प (ऑप्शन) संविदा का आवंटन है, जिसका प्रयोग उस कार्यविधि, जिसे समय-समय पर संगत प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, के अनुसार दायित्व की पूर्ति के लिए समान विकल्प संविदा में समान सौदा मूल्य पर किसी लघु स्थिति (पोजिशन) के लिए किया जाता है।

2. प्रयोग

प्रयोग का अर्थ क्लियरिंग कारपोरेशन के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार और उनके अधीन विकल्प (ऑप्शन) धारक द्वारा अधिकार का आह्वान करना है।

3. समापन समय

समापन समय विकल्प संविदा के समापन दिन को कारोबार घंटों अथवा ऐसे अन्य समय, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, का समापन है। इस परिप्रेक्ष्य में कारोबार घंटों में विकल्प संविदा के प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ व्यापारिक घंटे के समापन के बाद किसी निर्दिष्ट एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट समय शामिल होगा।

4. यूरोपीय विकल्प संविदा

यूरोपीय शैली विकल्प संविदा का अर्थ एक विकल्प संविदा है, जिसका प्रयोग समापन समय को अथवा उसके पूर्व समापन दिन को किया जा सकता है।

5. फ्यूचर्स शैली प्रीमियम निपटान :

फ्यूचर्स शैली प्रीमियम निपटान का अर्थ फ्यूचर्स संविदाओं के लिए संगत प्राधिकारी द्वारा यथानिर्दिष्ट निपटान प्रणाली के आधार पर विकल्प संविदा का प्रीमियम निपटान है और इसमें संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार दीर्घ और लघु विकल्प स्थिति (पोजिशन) पर प्रारंभिक माजिन और बाजार निपटान को अंकन शामिल है।

(ब्र) निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा को परिभाषा अध्याय में उपयुक्त स्थानों में प्रविष्ट किया जाता है :

1. निगमित कार्रवाई :

निगमित कार्रवाई का अर्थ स्टॉक विभाजन, स्टॉक समेकन, विलयन/विलयन हटाने की स्कीम, स्पिनऑफ, समा-मेलन, पूंजी पुनः संरचना और संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट समान प्रकृति के ऐसे विशेषाधिकार अथवा घटनाओं के परिणामस्वरूप लाभांश, वोनस, राइट शेयर, शेयरों का निर्गमन है।

2. प्रयोग निपटान कीमत

प्रयोग निपटान के संबंध में प्रयोग निपटान कीमत प्रयोग के दिन को अन्तर्निहिता प्रतिभूति का बंद मूल्य अथवा ऐसा अन्य मूल्य है जिसका निर्णय संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर किया जाए।

3. प्रयोग निपटान मूल्य

प्रयोग निपटान के संबंध में प्रयोग निपटान मूल्य का अर्थ निपटान के प्रयोजनार्थ विकल्प संविदा के व्यापार की प्रत्येक इकाई के लिए प्रयोग निपटान कीमत और सौदा कीमत के बीच का अंतर है।

4. अन्तर्निहित खण्ड

अन्तर्निहिता खण्ड उस निर्दिष्ट एक्सचेंज के खंड का संदर्भ देता है, जहां संगत प्राधिकारी अन्तर्निहित प्रतिभूति में लेन-देन स्वीकार कर सकता है।

(II) अध्याय 5क को निम्नलिखित नए अध्याय 5क में प्रतिस्थापित किया जाता है :

5क विकल्प संविदाओं का निपटान

5.क. 1 विकल्प संविदा के लिए दैनिक प्रीमियम निपटान

प्रीमियम देय स्थिति (पोजिशन) वाले फ्यूचर्स और आप्शन क्लियरिंग सदस्य निपटान के लिए क्लियरिंग कारपोरेशन को वह प्रीमियम मूल्य, जिस पर विकल्प संविदा खरीदी गई थी, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रीमियम प्राप्तव्य स्थिति (पोजिशन) सहित फ्यूचर्स और आप्शन क्लियरिंग सदस्य

निपटान के लिए क्लियरिंग कारपोरेशन से उस प्रीमियम मूल्य को प्राप्त करने के हकदार हैं, जिस पर विकल्प संविदा बेची गई थी।

(क) प्रीमियम निपटान का तरीका : दैनिक प्रीमियम निपटान दायित्व तकद में अथवा ऐसे अन्य रूप में जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, अदा किया जाएगा।

(ख) प्रीमियम निपटान की शैली : प्रीमियम निपटान की शैली प्रीमियम शैली अथवा फ्यूचर्स शैली अथवा संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गई ऐसी अन्य शैली हो सकती है। क्लियरिंग कारपोरेशन उन सभी विकल्प संविदाओं, जिन्हें स्वीकार किया जाएगा और निपटाया जाएगा, के लिए प्रीमियम निपटान की शैली निर्दिष्ट करेगा। क्लियरिंग कारपोरेशन समय-समय पर प्रीमियम निपटान की एक अथवा अधिक शैली के लिए प्रीमियम निपटान की विधि निर्दिष्ट करेगा।

(ग) प्रीमियम निपटान की विधि : संगत प्राधिकारी समय-समय पर प्रीमियम निपटान की निर्दिष्ट शैली के अनुसार प्रीमियम निपटान की विधि निर्दिष्ट करेगा। क्लियरिंग कारपोरेशन संबंधित क्लियरिंग सदस्यों द्वारा प्रीमियम निपटान की विधि के अनुसार स्वीकार सभी विकल्प संविदाओं के लिए देय अथवा प्राप्तव्य प्रीमियम निपटान राशि का हिसाब प्रत्येक व्यापारिक दिन की समाप्ति पर अथवा ऐसे अन्य समय, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, लगाएगा और उसे क्लियरिंग सदस्यों को सूचित करेगा। तदनुसार, ऐसे क्लियरिंग सदस्य प्रीमियम निपटान के लिए क्लियरिंग कारपोरेशन को ऐसी प्रीमियम निपटान राशि का भुगतान करेंगे अथवा उचित प्राप्त करेंगे।

(घ) प्रीमियम निपटान का समय : संगत प्राधिकारी समय-समय पर प्रीमियम निपटान होने का दिन और समय निर्दिष्ट करेगा।

5क. 2. प्रयोग

(क) प्रयोग की किस्म

किसी विकल्प संविदा के लिए प्रयोग की किस्म स्वैच्छिक अथवा स्वचालित अथवा अन्य किसी किस्म की हो सकती है, जिसे संगत प्राधिकारी समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

1. स्वैच्छिक प्रयोग

स्वैच्छिक प्रयोग नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अधीन किसी क्लियरिंग सदस्य द्वारा अपनी इच्छाशक्ति पर विकल्प का प्रयोग है।

2. स्वचालित प्रयोग

स्वचालित प्रयोग सभी राशि में सौदा मूल्य विकल्प संविदाओं का प्रयोग है, जिन्हें स्वतः ही अप्रत्यादेय रूप से नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अधीन समापन तारीख को प्रयोग किया जाता है।

पूर्वोक्त के होते हुए भी, अगर कोई क्लियरिंग सदस्य राशि में सौदा मूल्य विकल्प संविदा का प्रयोग नहीं करना चाहता तो विनियम 5क. 2 (ग) के अनुसार उपयुक्त अनुदेश देना ऐसे क्लियरिंग सदस्य का उत्तरदायित्व होगा।

राशि में सौदा मूल्य के अतिरिक्त सौदा मूल्य पर विकल्प संविदा का प्रयोग संगत प्राधिकारी के विवेक पर और उन आवश्यकताओं, जिन्हें संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, के अधीन होगा।

(ख) प्रयोग कार्यतंत्र

प्रयोग कार्यतंत्र अंतरिम अथवा अंतिम अथवा ऐसा अन्य कार्यतंत्र हो सकता है, जिसे संगत प्राधिकारी समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

1. अंतरिम प्रयोग

अंतरिम प्रयोग समापन दिन अथवा ऐसे अन्य दिन और/अथवा समय, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, के पूर्व किसी भी समय किसी विकल्प संविदा का प्रयोग है। अंतरिम प्रयोग स्वैच्छिक है। ऐसी संविदा का निपटान प्रयोग निपटान 5क. 4. 1 के लिए संगत प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होगा।

2. अंतिम प्रयोग

अंतिम प्रयोग समापन दिन का समापन समय का अथवा उसके पूर्व अथवा ऐसे अन्य दिन और/अथवा समय, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, किसी विकल्प संविदा का प्रयोग है। अंतिम प्रयोग स्वचालित अथवा स्वैच्छिक हो सकता है।

ऐसी संविदाओं का निपटान 5क. 4. 1 में प्रयोग निपटान के लिए संगत प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(ग) प्रयोग कार्यविधि

किसी भी क्लियरिंग सदस्य द्वारा विकल्प संविदा के प्रयोग के लिए कार्यविधि यहाँ इसके बाह्य यथानिर्दिष्ट अथवा ऐसी अन्य कार्यविधि, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, होगी।

1. क्लियरिंग कारपोरेशन को प्रयोग की नोटिस

संगत प्राधिकारी समय-समय पर निम्नलिखित के सहित विकल्प संविदा के प्रयोग से संबंधित प्रावधान निर्दिष्ट कर सकता है :

(क) सदस्यों की किस्म, जो प्रयोग कर सकते हैं।

(ख) प्रयोग की नोटिस देने के लिए सुविधा/प्रणाली।

(ग) दिन जब प्रयोग की नोटिस प्रस्तुत की जा सकती है।

(घ) विकल्प संविदा का न्यूनतम लॉट आकार, जिसका प्रयोग किया जा सकता है।

(ङ) समयावधि, जिसके भीतर प्रयोग की नोटिस प्रस्तुत की जा सकती है।

(च) विकल्प संविदा की अधिकतम संख्या, जिसका प्रयोग किसी एक दिन अथवा अवधि के भीतर किसी सदस्य अथवा बाजार के लिए किया जा सकता है।

(छ) सौदा मूल्य (अर्थात् राशि में और अथवा राशि पर और/अथवा राशि से बाहर), जिसका विकल्प संविदा का प्रयोग किया जा सकता है।

(ज) ऐसी अन्य बातें जिसे वह सही मনে।

प्रयोग के लिए नोटिस प्रयोग की नोटिस देने के दिन को व्यापारिक घंटे की समाप्ति अथवा ऐसे अन्य दिनांक पर, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, पर किसी विकल्प संविदा में दीर्घ-स्थिति (पोजिशन) पर मानी जाएगी।

कोई भी क्लियरिंग सदस्य नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अधीन यथाप्रदत्त को छोड़कर इस प्रकार प्रस्तुत किसी भी प्रयोग नोटिस को रद्द अथवा संशोधित नहीं करेगा।

2. क्लियरिंग कारपोरेशन द्वारा प्रयोग नोटिस स्वीकार करना

प्रयोग नोटिस, जिसे 5क. 2 (ग) 1 में स्थापित प्रावधानों के अनुसार दिया गया है, पर संगत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के लिए विचार किया जा सकता है।

संगत प्राधिकारी द्वारा प्राप्त ऐसी प्रयोग नोटिस को उस दिन, अथवा ऐसे अन्य दिन अथवा समय, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, जब प्रयोग नोटिस दी गई है, को व्यापारिक घंटे की समाप्ति पर कार्यवाही करने के बाद मान्य अथवा अमान्य घोषित किया जाएगा। सभी मान्य प्रयोग नोटिस संगत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की जाएगी और अमान्य प्रयोग नोटिस संगत प्राधिकारी द्वारा स्वतः अस्वीकृत हो जाएंगी।

पूर्ववर्ती के होते हुए भी संगत प्राधिकारी बाजार के हित में किसी प्रयोग नोटिस को अमान्य घोषित कर सकता है जहाँ :

2.1 संगत प्राधिकारी प्रयोग के लिए नोटिस दी है, के पास उस संविदा में उस समय जब ऐसी नोटिस पर संगत प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाती है, कोई खुली दीर्घ स्थिति (पोजिशन) नहीं है।

2.2 अन्य कोई कारण

3. प्रयोग नोटिस का प्रतिसंहरण

जब तक संगत प्राधिकारी द्वारा अन्यथा अनुमति नहीं दी जाए सभी मान्य प्रयोग नोटिस प्रतिसंहरणीय होंगी।

4. प्रयोग पर प्रतिबंध

संगत प्राधिकारी को किसी भी विकल्प संविदा में प्रयोग पर ऐसा प्रतिबंध अधिरोपित करने का प्राधिकार होगा, जिसे वह विकल्प संविदा अथवा अप्रतिष्ठित प्रतिभूतियों में उचित और क्रम-बद्ध बाजार बनाए रखने के हित में आवश्यक समझे अथवा अन्यथा जनहित में अथवा निवेशकों के संरक्षण अथवा अन्य किसी कारण, जिसे संगत प्राधिकारी सही समझे, के लिए उचित समझे। ऐसे प्रति-

बंध के उल्लंघन में कोई भी प्रयोग स्वतः अमान्य हो जाएगा और प्रभावी नहीं होगा।

5क.3 समनुदेशन

(क) समनुदेशन विधियाँ

समनुदेशन विधियाँ समानुपातिक अथवा यादृच्छिक हो सकती हैं अथवा ऐसी अन्य विधियाँ हो सकती हैं, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए।

1. समानुपातिक समनुदेशन

समानुपातिक समनुदेशन संगत विकल्प संविदा के लिए यथानिर्दिष्ट बाजार लॉट में समानुपातिक रूप से प्रयुक्त विकल्प संविदा का संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कार्य-विधि के अनुसार समान शृंखला सहित विकल्प संविदा में एक अथवा एक से अधिक लघु स्थिति (पोजिशन) को आवंटन है।

2. यादृच्छिक समनुदेशन

यादृच्छिक समनुदेशन संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट कार्य-विधि के अनुसार संगत विकल्प संविदा के लिए यथानिर्दिष्ट बाजार लॉट में यादृच्छिक रूप से प्रयुक्त विकल्प संविदा का समान शृंखला सहित विकल्प संविदा में एक अथवा एक से अधिक लघु स्थिति (पोजिशन) को आवंटन है।

(ख) समनुदेशन कार्य-विधि

संगत प्राधिकारी समनुदेशन कब किया जाए उनके दिन और/अथवा समय सहित समनुदेशन कार्य-विधि निर्दिष्ट कर सकता है। क्लियरिंग कारपोरेशन द्वारा मान्य के रूप में स्वीकृत प्रयोग नोटिस समनुदेशन कार्य-विधि के अनुसार दायित्वों की पूर्ति के लिए समान शृंखला वाली विकल्प संविदा में लघु स्थितियों (पोजिशन) के लिए क्लियरिंग सदस्यों के ग्राहकों अथवा व्यापारिक सदस्यों अथवा व्यापारिक सदस्यों के ग्राहकों को समनुदेशित की जाएगी। ऐसी लघु स्थितियाँ (पोजिशन) जिन्हें प्रयुक्त विकल्प संविदायें समनुदेशित की जाती हैं को निपटान के प्रयोजनार्थ समनुदेशित विकल्प संविदाएं कहा जाएगा। समनुदेशित सदस्य विकल्प संविदा के लिए निर्दिष्ट प्रयोग निपटान कार्य-विधि और नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार अपने दायित्व की पूर्ति करने का उत्तरदायी होगा।

5क.4 प्रयोग निपटान

प्रयोग निपटान अंतरिम अथवा अंतिम हो सकता है। संगत प्राधिकारी समय-समय पर अंतरिम प्रयोग निपटान और अंतिम प्रयोग निपटान के लिए कार्य-विधि, तरीका, विधि, दिन, समय आदि निर्दिष्ट कर सकता है।

5क.4.1 प्रयोग निपटान

संगत प्राधिकारी समय-समय पर प्रयोग की किस्म और निपटान का कार्य-तंत्र निर्दिष्ट कर सकता है।

5क.4.1.1 निपटान का तरीका: निपटान का तरीका या तो नकद निपटान अथवा अन्तर्निहित खंड में दायित्व के सृजन

अथवा ऐसे अन्य तरीके, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, द्वारा हो सकता है। अन्तर्निहित खंड में दायित्व के सृजन द्वारा निपटान या तो नकदी आधारित अथवा सुपुर्दगी आधारित हो सकता है।

5.क 4.1.2 निपटान की विधि:

4.1.2.1 नकद निपटान

4.1.2.1.1 प्रयुक्त विकल्प संविदा और लघु स्थिति (पोजिशन), जिसे ऐसी प्रयुक्त विकल्प संविदा समनुदेशित की गई है, का निपटान प्रयोग निपटान मूल्य अथवा ऐसे अन्य मूल्य, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, पर किया जाएगा।

4.1.2.1.2 क्लियरिंग सदस्य, जिसे विकल्प संविदा समनुदेशित की गई है, क्लियरिंग कारपोरेशन को नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अधीन विकल्प संविदा की प्रत्येक यूनिट के लिए प्रयोग निपटान मूल्य अदा करने का उत्तरदायी अथवा उससे उसे प्राप्त करने, जैसा भी मामला हो, का हकदार होगा।

4.1.2.1.3 क्लियरिंग सदस्य, जिसने विकल्प संविदा का प्रयोग किया है, नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अधीन विकल्प संविदा की प्रत्येक यूनिट के लिए क्लियरिंग कारपोरेशन को प्रयोग निपटान मूल्य अदा करने का उत्तरदायी होगा अथवा उसे प्राप्त करने का हकदार होगा।

4.1.2.2 अन्तर्निहित प्रतिभूति और अन्तर्निहित खंड में दायित्व के सृजन द्वारा निपटान—क्लियरिंग कारपोरेशन अपने विवेक पर दोनों क्लियरिंग सदस्यों, जिन्होंने विकल्प संविदा का प्रयोग किया है और जिन्हें ऐसी प्रयुक्त विकल्प संविदा समनुदेशित की गई है, के संबंध में संगत अन्तर्निहित खंड में अन्तर्निहित प्रतिभूति में दायित्व सृजित करने का हकदार होगा।

विकल्प संविदा, जिसका प्रयोग किया गया है और लघु स्थिति (पोजिशन) जिसे ऐसी प्रयुक्त विकल्प संविदा समनुदेशित की गई है, का निपटान विकल्प संविदा के सौदा मूल्य पर विकल्प संविदा द्वारा सूचित संगत अन्तर्निहित खंड में अन्तर्निहित प्रतिभूति की यूनिटों की समतुल्य संख्या में दायित्व सृजित करने की विधि अथवा ऐसी अन्य विधि, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, द्वारा किया जाएगा।

क. सुपुर्दगी आधारित:

(1) किसी प्रयुक्त विकल्प संविदा द्वारा सूचित अन्तर्निहित प्रतिभूति की यूनिटों की समतुल्य संख्या में दायित्व का सृजन विकल्प किस्म और शृंखला के अनुसार सौदा मूल्य पर क्लियरिंग कारपोरेशन के संगत अन्तर्निहित खंड में प्रयोग के दिन को अथवा उसके बाद किया जाएगा। संगत प्राधिकारी समय-समय पर वैध प्रयुक्त विकल्प संविदाओं के लिए अन्तर्निहित प्रतिभूति में दायित्व के सृजन का दिन और समय निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) समनुदेशित विकल्प संविदा द्वारा सूचित अन्तर्निहित प्रतिभूति के यूनिटों की समतुल्य संख्या में दायित्व का सृजन क्लियरिंग कारपोरेशन के संगत अन्तर्निहित खंड में प्रयोग के दिन अथवा उसके बाद सौदा मूल्य पर विकल्प किस्म और श्रृंखला के अनुसार किया जाएगा। संगत प्राधिकारी वैध समनुदेशित विकल्प संविदाओं के लिए अन्तर्निहित प्रतिभूति में दायित्वों के सृजन के लिए समय-समय पर दिन और समय निर्दिष्ट कर सकता है।

(3) क्लियरिंग सदस्य, जिसने विकल्प संविदा का प्रयोग किया है अथवा विकल्प संविदा समनुदेशित की गई है, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार सृजित सुपुर्दगी अथवा भुगतान दायित्व, जैसा भी मामला हो, क्लियरिंग कारपोरेशन के पूरा करने का उत्तरदायी होगा। ऐसे दायित्व की पूर्ति पर वह क्लियरिंग कारपोरेशन के अन्तर्निहित खंड के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अधीन और उनके अनुसार क्लियरिंग कारपोरेशन से निर्धियां अथवा अन्तर्निहित प्रतिभूतियां, जैसा भी मामला हो, प्राप्त करने का हकदार होगा।

(4) किसी विकल्प संविदा के संबंध में दायित्व क्लियरिंग कारपोरेशन के संगत अन्तर्निहित खंड में संगत अन्तर्निहित प्रतिभूति में दायित्व के सृजन पर स्वतः फ्यूचर्स और ऑप्शन खंड के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार निपटाया गया माना जाएगा तथापि बशर्ते कि अगर कोई क्लियरिंग सदस्य अन्तर्निहित खंड में इस प्रकार सृजित अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाता तो नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार ऐसे दायित्वों को पूरा करने के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शन खंड की निपटान निधि का उपयोग किया जा सकता है।

(5) किसी विकल्प संविदा के प्रयोग और समनुदेशन के अनुसरण में क्लियरिंग कारपोरेशन के संगत अन्तर्निहित खंड में सृजित दायित्व क्लियरिंग कारपोरेशन के ऐसे अन्तर्निहित खंड के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार निपटाया जाएगा।

(ख) नकदी आधारित

(1) प्रयुक्त विकल्प संविदा और समनुदेशित विकल्प संविदा का निपटान विकल्प संविदा द्वारा सूचित संगत अन्तर्निहित खंड में दायित्व सृजित करने की विधि द्वारा प्रयोग के दिन अथवा उसके बाद किया जाएगा। संगत प्राधिकारी समय-समय पर वैध प्रयुक्त विकल्प संविदाओं के लिए अन्तर्निहित प्रतिभूति में दायित्व के सृजन के लिए दिन और समय निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) क्लियरिंग सदस्य, जिसे विकल्प संविदा समनुदेशित की गई है, उप-नियमों और विनियमों के अधीन विकल्प संविदा की प्रत्येक यूनिट, जैसा भी मामला हो, के लिए क्लियरिंग कारपोरेशन को प्रयोग निपटान मूल्य अदा करने का उत्तरदायी अथवा उससे प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) क्लियरिंग सदस्य, जिसने विकल्प संविदा का प्रयोग किया है, नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अधीन विकल्प संविदा की प्रत्येक यूनिट, जैसा भी मामला हो, के लिए क्लियरिंग कारपोरेशन को प्रयोग निपटान मूल्य अदा करने का उत्तरदायी अथवा उससे प्राप्त करने का हकदार होगा।

2-170 GI/2001

(4) विकल्प संविदा के प्रयोग और समनुदेशन के अनुसरण में क्लियरिंग कारपोरेशन के संगत अन्तर्निहित खंड में क्लियरिंग सदस्य की ओर से सृजित दायित्व क्लियरिंग कारपोरेशन के ऐसे अन्तर्निहित खंड के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार निपटाया जाएगा।

(5) किसी विकल्प संविदा के संबंध में दायित्व क्लियरिंग कारपोरेशन के संगत अन्तर्निहित खंड में संगत अन्तर्निहित प्रतिभूति में दायित्वों के सृजन पर स्वतः फ्यूचर्स और ऑप्शन खंड के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार निपटाया गया माना जाएगा। तथापि बशर्ते कि अगर कोई क्लियरिंग सदस्य अन्तर्निहित खंड में इस प्रकार सृजित अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाता तो नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार ऐसे दायित्वों को पूरा करने के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शन खंड की निपटान निधि का उपयोग किया जा सकता है।

5क. 4.1.3 निपटान का दिन और समय

संगत प्राधिकारी समय-समय पर उस दिन और समय, जब निपटान किया जाएगा, को निर्दिष्ट कर सकता है।

5क.5 अन्तर्निहित प्रतिभूति में निगमित कार्रवाई के कारण विकल्प संविदा में स्थिति (पोजिशन) का समायोजन

संगत प्राधिकारी समय-समय पर अन्तर्निहित प्रतिभूति में निगमित कार्रवाई से उत्पन्न हुए अथवा उसके प्रासंगिक किसी खुली स्थिति (पोजिशन) में असमायोजन-सहित समायोजन, किसी अथवा सभी विकल्प संविदा को समाप्त करने और/अथवा संगत विकल्प संविदाओं के लिए निपटान विधियों और कार्यविधियों के संबंध में उपबंध निर्दिष्ट कर सकता है।

समायोजन

समायोजन का अर्थ नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार अन्तर्निहित प्रतिभूति में निगमित कार्रवाई से उत्पन्न होने वाली अथवा उसके प्रासंगिक संगत विकल्प संविदा में खुली स्थिति (पोजिशन) और अथवा संविदा विशिष्टि में संशोधन है।

5क. 6 क्लियरिंग प्रपत्र

सभी क्लियरिंग प्रपत्र संगत विनियम में अथवा उसके अतिरिक्त अथवा उसके संशोधन अथवा प्रतिस्थापन महित ऐसे अन्य प्रपत्र अथवा प्रपत्रों, जिसे संगत प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित करें, यथानिर्दिष्ट होंगे।

5क. 7 निपटान दायित्व विवरण

क्लियरिंग कारपोरेशन क्लियरिंग सदस्यों और व्यापारिक सदस्यों को उन्हें प्रीमियम निपटान तैयार करने, विकल्प संविदाओं के विभिन्न किस्मों में लेन-देन से संबंधित अन्य निपटान दायित्व विवरण तैयार करने योग्य बनाने के लिए संगत आंकड़े डाउनलोड करना सुविधाजनक बनाएगा।

5क 8 भुगतान का तरीका

सभी फ्यूचर्स और ऑप्शन क्लियरिंग सदस्यों के पास नौमो-दिष्ट भुगतान दिन को उनके निधि दायित्व की सीमा तक उनके क्लियरिंग खाते में निधियों का स्पष्ट जमा होगा। तथापि, वशतें कि संगत प्राधिकारी किसी अथवा सभी फ्यूचर्स और ऑप्शन क्लियरिंग सदस्यों के लिए निधियों के भुगतान का भिन्न-भिन्न तरीका निर्दिष्ट कर सकता है।

5क. 9 निधियों की प्राप्ति

क्लियरिंग बैंक उन फ्यूचर्स और ऑप्शन क्लियरिंग सदस्यों, जिन्हें क्लियरिंग कारपोरेशन ने अनुदेशानुसार निधियां प्राप्त करना है, को क्लियरिंग खाते में जमा करेगा। किसी फ्यूचर्स और ऑप्शन क्लियरिंग सदस्य को देय सभी निधियां सामान्यतया उसके खाते में जमा की जाएंगी जब तक (क) फ्यूचर्स और ऑप्शन क्लियरिंग सदस्य क्लियरिंग कारपोरेशन को अपना दायित्व निष्पादित नहीं करता अथवा (ख) इसका संगत प्राधिकारी द्वारा अन्यथा आदेश दिया जाता है।

तथापि वशतें कि संगत प्राधिकारी सभी अथवा किसी फ्यूचर्स और ऑप्शन क्लियरिंग सदस्यों के लिए निधियां जमा करने का विभिन्न तरीका निर्दिष्ट कर सकता है।

(III) विनियमों का मौजूदा विनियम 3.12 निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाता है :

3.12 खुली स्थिति (पोजिशन)

किसी व्युत्पन्न संविदा की खरीद अथवा बिक्री के लिए सभी संविदाएं खुली और प्रभावी रहेंगी तथा फ्यूचर्स और ऑप्शन क्लियरिंग सदस्यों और उनके संघटकों पर तब तक दायित्वकारी रहेंगी जब तक तक संविदा प्रतिसंतुलित करके अथवा ऐसी अन्य विधि, जिसे संगत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, परिसमाप्त नहीं की जाती; तथापि वशतें कि सभी खुली स्थिति (पोजिशन) समाप्त दिवस के बाद मौजूद नहीं रहेंगी।

(IV) अध्याय 5 को छोड़कर, "फ्यूचर्स संविदा", जहां भी इसका उल्लेख आता है, को उपरोक्त संशोधनों के परिणाम-स्वरूप "व्युत्पन्न संविदा" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

(V) यहां इसमें प्रयुक्त 'नियम, उप-नियम और विनियम' शब्द जब तक स्पष्टतया अन्यथा वर्णन नहीं किया जाए क्लियरिंग कारपोरेशन के फ्यूचर्स और ऑप्शन खंड के नियमों, उप-नियम विनियमों के संबंध में है और उनका अर्थ समय-समय पर लागू क्लियरिंग कारपोरेशन के फ्यूचर्स और ऑप्शन खंड के नियम, उप-नियम और विनियम होगा।

(VI) उपरोक्त संशोधनों से उत्पन्न हुए परिणामी संशोधन किए गए हैं।

कृते नेशनल सिक्यूरिटीज विक्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

आर० जयकुमार
सहायक कंपनी सचिव

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

The provisions contained in NSE (Futures & Options) Trading Regulations are amended to the extent given hereunder :—

1. The definitions chapter has been amended as under :

(a) The definitions of the terms 'exercise' and 'european style option contract' are substituted with the following definitions :

1. Exercise

Exercise means the invocation of right, in accordance with and subject to Rules, Byelaws and Regulations of Exchange, by the option holder.

2. European style option contract

European Style option contract means an option contract which may be exercised on the expiration day on or before the expiration time.

(b) The definition of the following term is inserted at appropriate place in the definitions chapter

Corporate Actions

Corporate Actions mean and include divided, bonus, rights shares, issue of shares as a result of stock split, stock consolidations, schemes of mergers/demergers, spin-offs, amalgamations, capital restructuring and such other privileges or events of a similar nature which may be specified by the Relevant Authority from time to time.

2. The following regulation is inserted after the existing Regulation 3.15 in the Chapter III :

Pursuant to the Corporate Actions announced by the issuer of the underlying securities, the Relevant Authority may make such modifications as may be deemed necessary including modifications in the open interest and/or contract specifications in accordance with the Rules, Byelaws and Regulations of the Exchange.

3. The following regulations are inserted after the existing Regulation 3.1 in the Chapter III :

3.2 Position Limit

The Relevant Authority may at any time in its absolute discretion prescribe maximum long and or short open positions for all or any of the F & O Trading Members and their clients including quantity and/or value for any or all Derivatives Contracts.

3.3 Action by the Relevant Authority

Upon a F&O trading member/any constituent of a F&O Trading Member failing to comply with any provisions of the Byelaws, Rules and Regulations of the Exchange/Clearing Corporation, requirements of the Exchange/Clearing Corporation including the requirements pertaining to the position limits as imposed by the Relevant Authority from time to time, the Relevant authority may as its discretion, either on its own or on the advice from the Clearing Corporation without notice, to the trading member close out open positions to the extent possible or take any such other measure or action, including withdrawal of trading facility, as may be deemed fit from time to time.

4. Consequential re-numbering to the regulations are made

For National Stock Exchange of India Limited

D. SATISH KUMAR
Manager

NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION LIMITED

The provisions contained in NSCC (Futures & Options Settlement) Regulations are amended to the extent given hereunder:—

(1) The definitions chapter has been amended as under:

- (a) The definitions of the terms 'assignment', 'exercise', 'expiration time', 'european style option contract' and 'futures style premium settlement' are substituted with the following definitions:

1. Assignment

Assignment means an allocation of an option contract, which is exercised, to a short position in the same option contract, at the same strike price, for fulfilment of the obligation, in accordance with the procedure as may be specified by the Relevant Authority, from time to time.

2. Exercise

Exercise means the invocation of right, in accordance with and subject to Rules, Byelaws and Regulations of Clearing Corporation, by the option holder.

3. Expiration time

Expiration time is the close of business hours on the expiration day of the option contract or such other time as may be specified by the Relevant Authority from time to time. In this context, business hours shall include the time specified by the specified Exchange, after the close of the trading hours, for the purpose of exercising option contracts.

4. European style option contract

European Style option contract means an option contract which may be exercised on the expiration day on or before the expiration time.

5. Futures style premium settlement

Futures Style premium settlement means premium settlement of option contracts based on settlement system as specified by the relevant authority for futures contracts and will include initial margins and mark to market settlement on long and short option positions, in accordance with the Regulations as may be specified by the Relevant Authority from time to time.

(b) The definitions of the following terms are inserted at appropriate places in the definitions chapter:

1. Corporate Actions

Corporate Actions mean and include dividend, bonus, rights shares, issue of shares as a result of stock split, stock consolidations, schemes of mergers/de-mergers, spin-offs, amalgamations, capital restructuring and such other privileges or events of a similar nature which may be specified by the Relevant Authority from time to time.

2. Exercise Settlement Price

Exercise Settlement price, in respect of Exercise Settlement, is the closing price of the underlying security on the day of exercise or such other price as may be decided by the relevant authority from time to time.

3. Exercise Settlement Value

Exercise Settlement Value, in respect of Exercise settlement, means the difference between the strike price and the exercise settlement price for each unit of trading of the option contract for the purpose of settlement.

4. Underlying Segment

Underlying segment refers to the specified Exchange where the relevant authority may admit dealings in the underlying security.

(II) Chapter 5A is replaced with the following new chapter 5A.

5A SETTLEMENT OF OPTION CONTRACTS

5A.1 Daily Premium Settlement for Option contracts

F&O Clearing Members with premium payable positions are obliged to effect pay-in to Clearing Corporation of the premium value at which the option contracts were purchased, towards settlement. F&O Clearing Members with premium receivable positions are entitled to receive the premium value at which the option contracts were sold, towards settlement, from Clearing Corporation.

- (a) Mode of premium settlement : The daily premium settlement obligation shall be paid in cash or such other form as may be specified by the relevant authority.
- (b) Style of premium settlement : The style of premium settlement may be premium style or future style or such other style as may be specified by the relevant authority from time to time. Clearing Corporation will specify the style of premium settlement for all option contracts that are to be cleared and settled. Clearing Corporation will from time to time, specify the method for premium settlement for one or more styles of premium settlement.
- (c) Method of premium settlement : The relevant authority will from time to time specify the method of premium settlement, in accordance with the specified style of premium settlement. Clearing Corporation will arrive at the premium settlement amount payable or receivable by the respective Clearing Members at the end of each trading day or such other time, as may be specified by the relevant authority from time to time, for all option contracts admitted, in accordance with the method of premium settlement, and communicate the same to the Clearing Members. Accordingly, such Clearing Members will pay or receive such premium settlement amount towards premium settlement to or from Clearing Corporation.
- (d) Time of premium settlement : The relevant authority will specify from time to time the day and time when Premium settlement will take place.

5A.2 Exercise

(a) Type Exercise

Type of exercise for an option contract may be Voluntary or automatic or such other type as may be specified by the relevant authority from time to time.

1. Voluntary Exercise

Voluntary exercise is the exercise of option contract by a Clearing Member, at his volition, subject to the Rules.

Bye-laws and Regulations.

2. Automatic Exercise

Automatic exercise is the exercise of all in-the-money strike price option contracts, which are automatically deemed to be irrevocably exercised, on the Expiration date, subject to the Rules, Bye-laws and Regulations.

Notwithstanding the foregoing, if a Clearing Member desires not to exercise an in-the-money strike price option contract, it shall be the responsibility of such Clearing Member to give appropriate instructions in accordance with Regulation 5A.2(c).

Exercise of an option contract at a strike price other than in-the-money strike price shall be at the discretion of the relevant authority and subject to the requirements as may be specified by the relevant authority from time to time.

(b) Exercise Mechanisms

Exercise mechanism may be Interim or Final or such other mechanism as may be specified by the relevant authority from time to time.

1. Interim Exercise

Interim Exercise is the exercise of an option contract at anytime prior to expiration day or such other day and/or

time as may be specified by the relevant authority from time to time. Interim exercise is voluntary. Settlement of such contracts shall be in accordance with the provisions specified by the relevant authority for Exercise Settlement 5A4.1.

2. Final Exercise

Final Exercise is the exercise of an option contract on or before expiration time on expiration day or such other day and/or time as may be specified by the relevant authority from time to time. Final exercise may be automatic or voluntary.

Settlement of such contracts shall be in accordance with the provisions specified by the relevant authority for Exercise Settlement in 5A4.1.

(c) Exercise procedure

The procedure for exercise of an option contract by a Clearing Member shall be as specified hereinafter or such other procedure as may be specified by the relevant authority from time to time.

1. Notice of exercise to Clearing Corporation

The relevant authority may specify from time to time the provisions regarding exercise of option contracts including :

- (a) type of members who may exercise.
- (b) facility system for tendering notice of exercise
- (c) day's when exercise notice may be submitted.
- (d) minimum lot size of option contracts which may be exercised.
- (e) time period within which exercise notice may be submitted.
- (f) maximum number of option contracts which may be exercised on a day or within a period, for a member or for the market.
- (g) strike price (i.e. in-the-money and/or at-the money and/or out-of-money) at which the option contract may be exercised.
- (h) such other conditions as it deems fit.

Notice for exercise shall be deemed to be on long positions in an option contract at the close of trading hours on the day the notice of exercise has been tendered, or such other day/time as may be specified by the relevant authority from time to time.

No Clearing Member shall revoke or modify any exercise notice so submitted except as provided under the Rules, Bye-laws and Regulations.

2. Acceptance of Exercise notice by Clearing Corporation

An exercise notice which has been tendered in accordance with the provisions as detailed in 5A.2(c)1 may be considered for acceptance by the relevant authority.

Such exercise notices received by the relevant authority shall be declared as valid or invalid after processing, at the close of trading hours on the day on which the exercise notice has been tendered, or on such other day or time, as may be specified by the relevant authority from time to time. All valid exercise notices will be accepted by the relevant authority and invalid exercise notices shall stand automatically rejected by the relevant authority.

Notwithstanding the foregoing, the relevant authority may, in the interest of market, declare as exercise notice as invalid where :

2.1 the entity who has tendered a notice for exercise has no open long positions in that contract, at the time when such notice is processed by the relevant authority.

2.2 any other reason.

3. Revocation of an exercise notice

Unless permitted otherwise by the relevant authority, all valid exercise notices shall be irrevocable.

4. Restrictions on Exercise

The relevant authority shall have an authority to impose such restrictions on exercise in any option contract as it may deem necessary in the interest of maintaining a fair and orderly market in the option contract or in the underlying securities or otherwise may deem advisable in the public interest or for the protection of investors or any other reason as the relevant authority may deem fit. Any exercise in contravention of such restriction shall be automatically invalid and not enforceable.

5A.3 Assignment

(a) Assignment methods

Assignment methods may be Proportional or Random or such other methods as may be specified by the relevant authority from time to time.

1. Proportional Assignment

Proportional Assignment is an allocation of exercised option contracts, proportionally, in market lots, as specified for the relevant option contract, to one or more than one short positions in the option contract with the same series, in accordance with the procedure as may be specified by the relevant authority from time to time.

Random Assignment

Random Assignment is an allocation of exercised option contracts, randomly, in market lots, as specified for the relevant option contract, to one or more than one short position, in the option contract with the same series, in accordance with the procedure as may be specified by the relevant authority from time to time.

(b) Assignment procedure

The relevant authority may specify the assignment procedure, including day and/or time when assignment will take place.

Exercise notices accepted by Clearing Corporation as valid will be assigned in accordance with the Assignment procedure, to short positions in the option contracts, with the same series, to the clients of Clearing Members or Trading Members or clients of Trading Members, for fulfillment of obligations. Such short positions, to which the exercised option contracts are assigned, shall be termed as assigned option contracts for the purpose of settlement. The assigned Member shall be liable to fulfil his obligation in accordance with the Exercise settlement procedure specified for the option contract and the Rules, Bye-laws and Regulations.

5A.4 Exercise Settlement

Exercise settlement may be Interim or Final. The Relevant Authority may specify from time to time the procedure, mode, method, days, time etc. for Interim Exercise settlement and Final Exercise settlement.

5A4.1 Exercise Settlement

The Relevant Authority may specify the exercise type and mechanism of settlement from time to time.

5A4.1.1 Mode of settlement Mode of settlement may be either cash settled or by creation of obligations in underlying segment or such other mode as may be specified by the Relevant Authority from time to time. Settlement by creation of obligations in underlying segment may be either cash based or delivery based.

5A4.1.2 Method of Settlement

4.1.2.1 Cash settlement :

4.1.2.1.1 An exercised option contract and the short position, to which such exercised option contract has been assigned, shall be settled at the exercise settlement price or such other price, as may be specified by the Relevant Authority from time to time.

4.1.2.1.2 Clearing Member, who has been assigned the option contract, shall be liable to pay to or entitled to receive from Clearing Corporation the exercise settlement value for each unit of the option contract, as the case may be, subject to the Rules, Byelaws and Regulations.

4.1.2.1.3 Clearing Member, who has exercised the option contract, shall be entitled to receive from, or liable to pay to, Clearing Corporation the exercise settlement value for each unit of the option contract, as the case may be, subject to the Rules, Byelaws and Regulations.

4.1.2.2 Settlement by Creation of Obligation in the underlying security and underlying segment:

Clearing Corporation shall, at its discretion, be entitled to create obligations in the underlying security in the relevant underlying segment, in respect of both clearing members, who have exercised option contract and to whom such exercised option contracts have been assigned.

An option contract, which has been exercised and the short position to which such exercised option contract has been assigned, shall be settled by the method of creating obligations in an equivalent number of units of the underlying security, in the relevant underlying segment conveyed by the option contract, at the strike price of the option contract or such other method as may be specified by the Relevant Authority from time to time.

A. Delivery Based :

(1) Obligations in an equivalent number of units of the underlying security, conveyed by an exercised option contract, shall be created, in accordance with the option type and series, at the strike price, on or after the day of exercise, in the relevant underlying segment of Clearing Corporation. The Relevant Authority may specify from time to time the day and time for creation of obligations in the underlying security for valid exercised option contracts.

(2) Obligations in an equivalent number of units of the underlying security, conveyed by an assigned option contract, shall be created, in accordance with the option type and series, at the strike price, on or after the day of exercise, in the relevant underlying segment of Clearing Corporation. The Relevant Authority may specify from time to time the day and time for creation of obligation in the underlying security for valid assigned option contracts.

(3) The Clearing Member who has exercised or has been assigned, as the case may be, the option contract, shall be liable to fulfill the delivery or payment obligations, so created, as the case may be, to Clearing Corporation. On fulfillment of such obligation, he shall be entitled to receive funds or underlying securities, as the case may be, from Clearing Corporation, subject to and in accordance with the Rules, Byelaws and Regulations of the underlying segment of Clearing Corporation.

(4) Obligations, in relation to an option contract, shall be deemed to have been settled, in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of F & O Segment, ipso facto, upon creation of obligations in the relevant underlying security in the relevant underlying segment of Clearing Corporation. Provided however if a clearing Member fails to meet his obligations so created in the underlying Segment, the Settlement Fund of the Futures & Options Segment may be utilised to meet such obligations in accordance with the Rules, Byelaws and Regulations.

(5) Obligations created in the relevant underlying segment of Clearing Corporation, pursuant to the exercise and assignment of an option contract, shall be settled, as per the Rules, Bye-laws and Regulations of such underlying segment of Clearing Corporation.

B. Cash Based :

(1) An exercised option contract and assigned option contract shall be settled by the method of creating obligations in the relevant underlying segment, conveyed by the option contract, on or after the day of exercise. The Relevant Authority may specify from time to time the day and time for creation of obligations in the underlying security for valid exercised option contracts.

(2) Clearing Member, who has been assigned the option contract, shall be liable to pay to or entitled to receive from Clearing Corporation the exercise settlement value for each unit of the option contract, as the case may be, subject to the Rules, Byelaws and Regulations.

(3) Clearing Member, who has exercised the option contract, shall be entitled to receive from or liable to pay to Clearing Corporation the exercise settlement value for each unit of the option contract, as the case may be, subject to the Rules, Byelaws and Regulations.

(4) Obligations created on behalf of a Clearing member in the relevant underlying segment of Clearing Corporation, pursuant to the exercise and assignment of an option contract, shall be settled, as per the Rules, Bye-laws and Regulations of such underlying segment of Clearing Corporation.

(5) Obligations, in relation to an option contract, shall be deemed to have been settled, in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of F & O Segment, ipso facto, upon creation of obligations in the relevant underlying security in the relevant underlying segment of Clearing Corporation. Provided however if a Clearing Member fails to meet his obligations so created in the underlying Segment, the Settlement Fund of the Futures & Options Segment may be utilised to meet such obligations in accordance with the Rules, Byelaws and Regulations.

5A.4.1.3 Day and Time of Settlement :

The Relevant Authority may specify from time to time the day and time when the settlement shall take place.

5A.5 Adjustment of Positions in option contracts on account of corporate actions in underlying security

The Relevant Authority may from time to time specify the provisions, relating to adjustments, including non-adjustment, in open positions, discontinuing any or all option contracts and/or settlement methods and procedures for the relevant option contracts, arising out of or incidental to corporate actions in the underlying security.

Adjustment

Adjustment shall mean and include modification in open positions and/or contract specifications in the relevant option contracts arising out of or incidental to corporate actions in the underlying security, in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations.

5A.6 Clearing Forms

All Clearing Forms shall be as specified in the relative regulation or in such other form or forms as the Relevant Authority may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.

5A.7 Settlement Obligations Statements

Clearing Corporation may facilitate download of relevant data to Clearing Members and Trading Members to enable them to generate Premium Settlement, Other Settlement Obligations Statements pertaining to transactions in different kinds of option contracts.

5A.8 Mode of Payment

All F & O Clearing Members shall, on the designated pay-in-day, have clear balance of funds in their clearing account to the extent of their funds obligation. Provided however the Relevant Authority may specify different mode of payment of funds for all or any of the F&O Clearing Members.

5A.9 Receipt of Funds

The Clearing Bank shall credit the clearing accounts of the F&O Clearing Members who are due to receive funds as per the instructions of the Clearing Corporation. All funds due to a F&O Clearing Member shall normally be credited to his account unless (a) the F&O Clearing Member does not perform his obligations to the Clearing Corporation or (b) it is otherwise ordered by the Relevant Authority.

Provided however the Relevant Authority may specify different mode of funds credit for all or any of the F&O Clearing Members.

(iii) The existing regulation 3.12 of the Regulations is replaced with the following regulation :

3.12 Open Positions

All contracts for the purchase or sale of any Derivatives Contract shall remain open and in force and shall continue to be binding upon the F&O Clearing Members and its constituents until liquidated by offsetting contract or such other method as may be specified by the Relevant Authority from time to time; provided however all open positions shall cease to exist after expiration day.

(iv) Except in Chapter 5, the term "Futures Contract" wherever it appears is substituted by "Derivative contract" consequential to the above amendments.

(v) The term 'Rules, Bye-laws and Regulations' used here-in is in relation to Rules, Bye-laws and Regulations of F&O Segment of Clearing Corporation unless explicitly stated otherwise and shall mean and include the Rules, Bye-laws and Regulations of F&O Segment of Clearing Corporation in force from time to time.

(vi) Consequential amendments arising out of the above amendments are carried out.

For National Securities Clearing Corporation Limited

R. JAYAKUMAR
Asst. Company Secretary

CABANA HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED

Regd. Office : 6, M J Building, Bhagirath Palace

Chandni Chowk, Delhi-110006

PUBLIC NOTICE

In the matter of Member's Voluntary Winding up of the Company

Notice is hereby given pursuant to section 485 (1) of the Companies Act, 1956, that the Company has passed the following special resolution at the Extra Ordinary General

Meeting of its members held on 10th July, 2001 requiring the Company to be wound up voluntarily :

"RESOLVED THAT in terms of the provisions of Section 484 (1) (b) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 1956 the consent of the Shareholders of the Company be and is hereby accorded for voluntary winding up of the Company as a members' voluntary winding up.

RESOLVED FURTHER THAT the Declaration of Solvency and the Statement of estimated realisable value of assets and liabilities thereto payable, by the Company as on 31st March, 2001 taken on oath by the Directors be and are hereby confirmed, approved and adopted.

RESOLVED FURTHER THAT all the assets and liabilities of the Company as appearing in the latest Audited Balance Sheet as on 31st March, 2001 be distributed/adjusted amongst the members of the Company whose name appear in the Register of Members as on date on a pro-rata basis as per their share holding ratio.

RESOLVED FURTHER THAT Mr. Rajeev K. Goel, Company Secretary in whole time practice be and is hereby appointed as the Liquidator of the Company at a remuneration of Rs. 10000 (Rupees ten thousand) plus re-imbursement of out of pocket expenses.

RESOLVED FURTHER THAT Mr. Rajeev K. Goel, the Liquidator be and is hereby authorised to exercise all the powers mentioned in Section 457 of the Companies Act, 1956."

Place : New Delhi

Date : 10th July, 2001

SUSHIL KUMAR JAIN
Director

FORM NO. 151

(See Rule 315)

Members' Voluntary Winding-up

Notice of appointment of Liquidator pursuant to Section 516

Name of Company	: Cabana Housing Finance Private Limited
Nature of Business	: Business
Registered Office	6, M. J. Building, Bhagirath Place, Chandni Chowk, Delhi-110 006
Name(s) and address(es) of Liquidator(s)	Mr. Rajeev K Goel Practicing Company Secretary S-547, School Block, Shakarpur. Delhi-110 092
Date of appointment	10th July, 2001
By whom appointed	Members in Extra Ordinary General Meeting RAJEEV K GOEL, Liquidator

SCINTILLA SECURITIES PRIVATE LIMITED

Regd. Office : A-241, Okhla Phase-I, New Delhi-110020

PUBLIC NOTICE

In the matter of Members' Voluntary Winding up of the Company

Notice is hereby given pursuant to section 485 (1) of the Companies Act, 1956, that the Company has passed the following special resolution at the Extra Ordinary General Meeting of its members held on 10th July, 2001 requiring the Company to be wound up voluntarily :

"RESOLVED THAT in terms of the provisions of Section 484 (1) (b) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 1956 the consent of the Shareholders of the Company be and is hereby accorded for voluntary winding up of the Company as a members' voluntary winding up.

RESOLVED FURTHER THAT the Declaration of Solvency and the Statement of estimated realisable value of assets and liabilities thereto payable the Company as on 31st March, 2001 taken on oath by the Directors be and are hereby confirmed, approved and adopted.

RESOLVED FURTHER THAT all the assets and liabilities of the Company as appearing in the latest Audited Balance Sheet as on 31st March, 2001 be distributed/adjusted amongst the members of the Company whose name appear in the Register of Members as on date on a pro-rata basis as per their shareholding ratio.

RESOLVED FURTHER THAT Mr. Rajeev K. Goel, Company Secretary in whole time practice be and is hereby appointed as the Liquidator of the Company at a remuneration of Rs. 10,000 (Rupees ten thousand) plus re-imbursement of out of pocket expenses.

RESOLVED FURTHER THAT Mr. Rajeev K. Goel, the Liquidator be and is hereby authorised to exercise all the powers mentioned in Section 457 of the Companies Act, 1956."

Place : New Delhi
Date : 10th July, 2001

RAVINDER JAIN
Director

FORM NO. 151

(Sec Rule 315)

Members' Voluntary Winding-up

Notice of appointment of Liquidator pursuant to Section 516

Name of Company	: Scintilla Securities Private Limited
Nature of Business	: Business
Registered Office	: A-241, Okhla Phase-I, New Delhi-110 020
Name(s) and address(es) of Liquidator(s)	: Mr. Rajeev K. Goel Practicing Company Secretary S-547, School Block Shakarpur, Delhi-110 092
Date of appointment	: 10th July, 2001
By whom appointed	: Members in Extra Ordinary General Meeting

RAJEEV K. GOEL, Liquidator

EBULLIENT TRADING PRIVATE LIMITEDRegd. Office : B-1 Ext/A-27, Mohan Co-operative
Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110 044**PUBLIC NOTICE**

In the matter of Members' Voluntary Winding up of the Company

Notice is hereby given pursuant to section 485 (1) of the Companies Act, 1956, that the Company has passed the following special resolution at the Extra Ordinary General Meeting of its members held on 10th July, 2001 requiring the Company to be wound up voluntarily :

"RESOLVED THAT in terms of the provisions of Section 484 (1) (b) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 1956 the consent of the Shareholders of the Company be and is hereby accorded for voluntary winding up of the Company as a members' voluntary winding up.

RESOLVED FURTHER THAT the Declaration of Solvency and the Statement of estimated realisable value of assets and liabilities thereto payable the Company as on 31st March, 2001 taken on oath by the Directors be and are hereby confirmed, approved and adopted.

RESOLVED FURTHER THAT all the assets and liabilities of the Company as appearing in the latest Audited Balance Sheet as on 31st March, 2001 be distributed/adjusted amongst the members of the Company whose name appear in the Register of Members as on date on a pro-rata basis as per their shareholding ratio.

RESOLVED FURTHER THAT Mr. Rajeev K. Goel, Company Secretary in whole time practice be and is hereby appointed as the Liquidator of the Company at a remuneration of Rs. 10,000 (Rupees ten thousand) plus re-imbursement of out of pocket expenses.

RESOLVED FURTHER THAT Mr. Rajeev K. Goel, the Liquidator be and is hereby authorised to exercise all the powers mentioned in Section 457 of the Companies Act, 1956."

Place : New Delhi
Date : 10th July, 2001

RAJESH JAIN
Director

FORM NO. 151

(See Rule 315)

Members' Voluntary Winding-up

Notice of appointment of Liquidator pursuant to Section 516

Name of Company : Ebuilient Trading Private Limited
 Nature of Business : Business
 Registered Office : B-1 Extn./A-27, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110 044
 Name(s) and address(es) of Liquidator(s) : Mr. Rajeev K. Goel
 Practicing Company Secretary
 S-547, School Block
 Shakarpur, Delhi-110 092
 Date of appointment : 10th July, 2001
 By whom appointed : Members in Extra Ordinary General Meeting
 RAJEEV K GOEL, Liquidator

SHEKELS IMPEX PRIVATE LIMITED

Regd. Office : 18/56 East Park Area, Karol Bagh
 New Delhi-110 005

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 10th July 2001

In the matter of Members' Voluntary Winding up of the Company

Notice is hereby given pursuant to section 485 (1) of the Companies Act, 1956, that the Company has passed the following special resolution at the Extra Ordinary General Meeting of its members held on 10th July, 2001 requiring the Company to be wound up voluntarily :

"RESOLVED THAT in terms of the provisions of Section 484 (1) (b) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 1956 the consent of the Shareholders of the Company be and is hereby accorded for voluntary winding up of the Company as a members' voluntary winding up.

RESOLVED FURTHER THAT the Declaration of Solvency and the Statement of estimated realisable value of assets and liabilities thereto payable the Company as on 31st March, 2001 taken on oath by the Directors be and are hereby confirmed, approved and adopted.

RESOLVED FURTHER THAT all the assets and liabilities of the Company as appearing in the latest Audited Balance Sheet as on 31st March, 2001 be distributed/adjusted amongst the members of the Company whose name appear in the Register of Members as on date on a pro-rata basis as per their share holding ratio.

RESOLVED FURTHER THAT Mr. Rajeev K. Goel, Company Secretary in whole time practice be and is hereby appointed as the Liquidator of the Company at a remuneration of Rs. 10,000 (Rupees ten thousand) plus re-imbursement of out of pocket expenses.

RESOLVED FURTHER THAT Mr. Rajeev K. Goel, the Liquidator be and is hereby authorised to exercise all the powers mentioned in Section 457 of the Companies Act, 1956."

Place : New Delhi

SANDEEP JAIN

Date : 10th July, 2001

Director

FORM NO. 151

(See Rule 315)

Members' Voluntary Winding-up

Notice of appointment of Liquidator pursuant to Section 516

Name of Company : Shekels Impex Private Limited
 Nature of Business : Business
 Registered Office : 18/56, East Park Area, Karol Bagh
 New Delhi-110 005
 Name(s) and address(es) of Liquidator(s) : Mr. Rajeev K. Goel
 Practicing Company Secretary
 S-547, School Block
 Shakarpur, Delhi-110 092
 Date of appointment : 10th July, 2001
 By whom appointed : Members in Extra Ordinary General Meeting
 RAJEEV K. GOEL, Liquidator

DAELIM E&C INDIA LIMITED

Regd. Office : 28, Najafgarh Road, New Delhi-110015

NOTICE

(Pursuant to section 485 (1) of the Companies Act, 1956)

Notice is hereby given that in the Extra-ordinary General Meeting of the Company held on 17th July, 2001, the following special resolution was passed regarding voluntary winding up of the Company :

"RESOLVED that having regard to the declaration made by the Board of Directors dated the 10th July, 2001, stating that

the Company would be able to pay its debts in full within a period of one year from the date of declaration, the company, Daelim E&C India Ltd. be wound up voluntarily, pursuant to section 484 (1) (b) of the Companies Act, 1956".

Dated : 17-7-2001

H. S. PARK
Managing Director

FORM NO. 151

(See Rule 315)

Members' (or Creditors' Voluntary Winding-up)**Members' Voluntary Winding-up****Notice of appointment of Liquidator pursuant to Section 516**

Name of Company	: Daelim E&C India Limited.
Nature of Business	: Engineering and Technical Consultancy
Address of Registered Office	: 28, Najafgarh, Road, New Delhi-110015
Name(s) and address(es) of Liquidator(s)	: Jitender Dhingra, 706, Akashdeep Barakhamba Road, New Delhi-110001.
Date of appointment	: 17th July, 2001.
By whom appointed	: Shareholders.

Dated : 18th July, 2001.

for DAELIM E&C INDIA LIMITED
JITENDER DHINGRA,
Liquidator

